

नकली सीमेंट बनाने की फैक्टरी का किया भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

Publish Date: Sat, 23 Nov 2019 07:35 PM (IST)



सस्ता सीमेंट की बोरी से ब्रांडेड और महंगी सीमेंट बनाकर बेचने के आरोप में पुलिस ने शनिवार की सुबह एक आरोपित को कुदरन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्

जागरण संवाददाता, अहरौरा (मीरजापुर) : सस्ती सीमेंट की बोरी से ब्रांडेड और महंगी सीमेंट बनाकर बेचने के आरोप में पुलिस ने शनिवार की सुबह एक आरोपित को कुदरन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर और 170 बोरी सीमेंट तथा 453 सीमेंट की खाली बोरी बरामद किया है। पुलिस की इस छापेमारी में दो अन्य आरोपित भागने में सफल रहे। पुलिस ने नकली सीमेंट बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए आरोपित को जेल भेज दिया। वही फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा शनिवार की सुबह सूचना मिली कि क्षेत्र के कुदरन गांव के पास स्थित रामजी बिद के मकान में नकली सीमेंट को असली बनाकर बेचने का खेल चल रहा है। सूचना मिलते ही उस मकान में छापेमारी किया गया तो वहां से आरोपी भागने लगे। मकान से पुलिस ने 125 बोरी असली सीमेंट सस्ती दाम वाली व एमपी बिड़ला के 45 बोरी में नकली सीमेंट बरामद किया है। वही 280 खाली बोरी सम्राट मार्का, 47 बोरी एमपी बिड़ला, 30 बोरी एसीसी मार्का, 52 बोरी आदित्य बिड़ला मार्का और 44 बोरी प्रिज्म चैंपियन प्लस की खाली बोरी को पुलिस ने बरामद किया है। इस दौरान नकली सीमेंट धोने के प्रयोग में लाई जाने वाली पावर ट्रैक प्लस की एक नीली रंग की ट्रैक्टर को भी पुलिस ने मौके से बरामद किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपित ध्वजा बिद निवासी कटौरा सोनहन कैमूर भभुआ बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

---वर्जन

सस्ती कीमत वाली सीमेंट को महंगी सीमेंट की बोरी में भरकर बेचे जाने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान तीन आरोपितों को इस गोरखधंधे में लिप्तता पाई गई है। जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं दो अन्य आरोपित फरार है। जिनकी तालाश की जा रही है।

राजेश चौबे, थानाध्यक्ष अहरौरा।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/mirzapur-fake-cement-making-factory-busted-one-arrested-19783285.html>